

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

CA-17(44)/2022-23

11th November, 2022

The General Manager (MO)
Bombay Stock Exchange

The Asstt. Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.

Through BSE Listing Centre

Through NEAPS

Sub: Extract of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the Quarter/ Half Year ended 30th September, 2022

Ref: Regulation 33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015: (Security ID:SAIL).

Dear Sir,

Please find attached copy of extract of newspaper publication of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter/ Half Year ended 30th September, 2022, published in Business Standard (English and Hindi) on 11th November, 2022. This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Steel Authority of India Limited

(M B Balakrishnan) CGM(Finance) & Company Secretary

Encl. As above.

इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली 110 003, दूरभाष : 011-24367481-86 फैक्स : 011-2436 7015, वेबसाईट : www.sail.co.in Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi-110 003, Phone : 011-24367481-86, Fax : 011-24367015, Website : www.sail.co.in Corporate Identity No. L27109DL1973 GOI006454 Adds successive govts have failed to create national security strategy

New Delhi, 10 November

n a security environment where the government seldom puts defence policy in the public domain and successive governments have failed to create a national security strategy. Defence Minister Rajnath Singh delivered a convocation address on Thursday to the graduating National Defence College (NDC) cadets in Delhi.

Such institutional speeches, especially those delivered at military training institutions, such as the NDC, are carefully parsed by defence analysts the world over, for indications of strategic policy. Thursday's NDC speech was no exception.

The most striking observation that defence analysts arrived at is: although India has active borders with two hostile neighbours — China and Pakistan — and combats longinsurgencies in Jammu & Kashmir and Manipur, the defence minister chose to focus almost entirely on non-traditional threats rather than hard military ones.

Rajnath called for concerted efforts of the international community to counter "grave" emerging threats such as cyberattacks and information warfare. Highlighting the narThe deployment of information war was most evident in the ongoing conflict between Russia and Ukraine. Throughout the conflict, social media has served as a battleground for both sides to spread competing narratives about the

Defence Minister



and external security, Rajnath said new dimensions of threats that keep evolving make them difficult to classify. He asserted that terrorism, which generally falls in the category of internal security, is now increasingly regarded as an external security threat, since the training, funding, and arming of such organisations is being carried out from outside the country.

He described the vulnerability of critical infrastructure to cyberattacks as "a big concern", with energy, transport, telecommunications, critical manufacturing industries, and interconnected financial systems being vulnerable to such threats. Underscoring another distribution channel.

ed that the "information war" has the potential to threaten a


shaping the opinion and perspective of the masses through the organised use of social media and online content generation platforms. "The deployment of information war was most evident in the ongoing conflict between Russia and Ukraine. Throughout the conflict, social media has served as a battleground for both sides to spread competing narratives about the war and portray the conflict on their own terms," stated Rainath, identifying social media as the primary

The defence minister said the Ukrainian conflict illustrated how ripple effects could adversely impact the whole world. Together, Russia and Ukraine export nearly a third of the world's wheat and barley, but this conflict had prevented grain from leaving the 'breadbasket of the world', leading to food crises in Africa and Asia.

Rainath said that India also faced an energy crisis, with the war leading to a disruption in international energy supply, raising the cost of energy import. He reaffirmed India's belief in a "multi-aligned policv", which envisioned diverse engagements with multiple stakeholders, so that everyone's concerns could be addressed. He termed it as the only way towards shared

responsibility and prosperity. "Strong and prosperous India would not be built at the cost of others... India does not believe in a world order where a few are considered superior to others. It is for this reason that when we partner any nation, it is on the basis of sovereign equality and mutual respect," said Rajnath.

He was addressing officers of the Indian armed forces, civil services and from friendly foreign countries during the 60th NDC course convocation ceremony.



Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2022

					(₹ Crore un	less stated o	therwise)
SI.	Particulars			ST	ANDALONE		
No.			Quarter en	ded	Half Yea	Year ended	
		30 th September, 2022	30 th June, 2022	30 th September, 2021	30 th September, 2022	30 th September, 2021	31 st March 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	26246.31	24028.59	26826.92	50274.90	47469.30	103473.32
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	(515.59)	1038.30	5752.89	522.71	10897.78	16392.13
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	(515.59)	1038.30	5752.89	522.71	10897.78	16038.72
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	(385.82)	776.33	4303.62	390.51	8153.64	12015.04
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(280.61)	804.40	4354.84	523.79	8180.57	11950.59
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53
7	Reserves excluding revaluation reserve						47886.61
8	Securities Premium Account						235.10
9	Net Worth						52017.14
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt						17284.10
11	Debt Equity Ratio						0.33
12	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised)						
1	1. Basic (₹)	(0.93)	1.88	10.42	0.95	19.74	29.09
	2. Diluted (₹)	(0.93)	1.88	10.42	0.95	19.74	29.09
13	Debenture Redemption Reserve						530.97
14	Debt Service Coverage Ratio						1.53
15	Interest Service Coverage Ratio (Number of times)						9.56

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2022

					,		
SI.	Particulars			CON	SOLIDATED		
No.			Quarter end	ed	Half Year	ended	Year ended
		30th September,	30 th June,	30th September,	30 th September,	30 th September,	31 st March
		2022	2022	2021	2022	2021	2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	26246.34	24028.62	26828.01	50274.96	47471.03	103476.84
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	(442.61)	1047.30	5794.86	604.69	11007.09	16645.28
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	(442.61)	1047.30	5794.86	604.69	11007.09	16291.87
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	(329.36)	804.50	4338.75	475.14	8236.11	12243.47
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the	(158.98)	911.95	4410.42	752.97	8303.87	12233.79
П	period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	`					
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53
7	Reserves excluding revaluation reserve						50081.15
8	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised)						
П	1. Basic (₹)	(0.80)	1.95	10.50	1.15	19.94	29.64
	2. Diluted (₹)	(0.80)	1.95	10.50	1.15	19.94	29.64

1) The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th November, 2022.

2) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2022 filed with the Stock Exchanges under regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investor Relations section on the Company's website www.sail.co.in.

Place: New Delhi (Anil Kumar Tulsiani) Date: 10th November, 2022

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

in Steel Authority of India Limited SAILsteel SAILsteelofficial Steel Authority of India Limited

Registered office : Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003 CIN: L27109DL1973GO1006454, Tel: +91 11-24367481, Fax: +91-11 24367015, E-mail: investor.relation@sail.in, Website: www.sail.co.in

9 Indians among 10 killed in Maldives fire

PRESS TRUST OF INDIA Male, 10 November

Nine Indians were among 10 people who died early Thursday when a major fire broke out in the garage below a cramped living quarters that

housed foreign workers here in Maldivian capital, an Indian High Commission

M area near the Maaveyo Mosque around 12:30 am.

"Ten people were confirmed dead," Ramdhir Singh, Welfare Officer, working in the Indian High Commission said.

"We are deeply saddened by the tragic fire incident in Male which has caused loss of the Indian High official said. The fire broke out Commission said in a tweet,

close contact with the local authorities and that the High Commission is reaching out to the families of the affected Indian nationals.

Maldivian Foreign Minister Abdulla Shahid said he was "deeply saddened" by the tragic news of fire in Male that has taken the lives of 10 expatriate

Nirufehi adding that the mission is in families. The living quarters had only a single window. It was housing 38 migrant workers from Bangladesh, India and Sri Lanka with a gas cylinder next to each bed, Maldives National Defence Force said.

Maldives National Disaster Authority (MNDA)'s chief Hisan Hassan said 28 people were rescued from

ACCENT REGION

CHHATTISGARH

Zero paddy acreage target for rabi crops

Raipur, 10 November

In yet another move to discourage paddy and encourage farmers for crop diversification, the Chhattisgarh government has reduced the acreage of summer paddy to zero for the coming rabi season 2022-23. The state has, however, set a target to take rabi crops in 1.92 million hectares of land.

'The target of summer paddy area has been reduced to zero in the crop-sowing programme set by the agriculture department for the rabi season this year," a state government spokesperson said. The decision is seen as vet another attempt of the state government to prevent the farmers from taking paddy in Chhattisgarh that has been once known as the rice-bowl of the country. The state wants to propel the farmers for crop diversification and go for wheat, gram, and peas in this season.

In the last season, farmers had cultivated summer paddy in 222,170 hectares in the state. Earlier, the Bhupesh Baghelled government had announced to procure arhar (pigeon pea), moong (green gram), and urad (black gram) at minimum support prices (MSPs) in the kharif marketing season 2022-23. The procurement started last month.

Farmers are getting ₹6,600 per quintal for moong and urad and ₹7,755 per quintal for arhar. The procurement will be made kharif-marketing season.

The Raiasthan government is taking

steps to boost mineral production in

the state. The e-auctions for three

mining leases and six composite

licences of five major minerals in

Additional Chief Secretary (Mines

garnet, limestone, copper, iron ore, and

magnesite, had been identified and were

and Petroleum) Subodh Agarwal said nine blocks of major minerals, including

nine blocks will be done soon.

RAJASTHAN

ANIL SHARMA

Jaipur, 10 November



The state wants to encourage farmers for crop diversification and go for wheat, gram, and peas in this season

through the Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation (Markfed).

Chief Minister Baghel had said the procurement of the crops at support price would give a boost to the income of farmers, who would now have the option to sell arhar, moong, and urad crops wherever they get a higher price. The state had reduced paddy acreage even for the kharif marketing season 2022-23. As against last season's 3.8 million hectares, paddy was sown in 3.3 million hectares in the current

E-auctions for mines, minerals in the offing

Mines Minister Pramod Jain Bhaya

government and stopped illegal mining.

composite licence for garnet in Bhilwara

Agarwal said that auction for the

said the auction of the mining plots

increased the revenues of the state

district and limestone in Kota and

Banswara districts had been readied.

auctioned for amalgamated mineral

copper in Alwar district, iron-ore in

Bhilwara district, and magnesite in

limestone and one block each of garnet

Udaipur district. Four blocks of

Similarly, the mining lease will be

UTTAR PRADESH

Manufacturing in focus to achieve trillion-dollar economy target

VIRENDRA SINGH RAWAT Lucknow, 10 November

Uttar Pradesh is betting big on the manufacturing sector to achieve the goal of becoming a trillion-dollar economy by 2027.

At present, the state's gross state domestic product (GSDP) is estimated at \$230 billion, while the contribution of the manufacturing sector is pegged at about 14 per cent, which the government is looking to boost by threefold to 45 per cent. To achieve the target, the government is laying greater emphasis on setting up and expanding new industries.

Seven thrust manufacturing verticals identified by the state include leather, textile, toys and games, defence, electronics, machinery, and electric vehicles. Recently, Chief Minister Yogi Adityanath presided over a high-level meeting with the top echelons of the industrial development department to sketch a broader action plan in this regard.

'The state is making efforts to increase the manufacturing sector contribution to GSDP by more than three times in the next five years," he underlined. Likewise, the state needs its annual growth rate to surge by 30-35 per cent to reach the trillion-dollar milestone

each of limestone, amalgamated copper,

and magnesite. Agarwal said after the

2015, in 2022-23, a maximum of nine

blocks of major minerals had been

composite blocks were auctioned.

limestone were auctioned. He said

amendment to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act

readied for auction. Earlier, from 2016-17

till now, 17 mining lease blocks and four

Of these a maximum of 16 blocks of

according to a rough estimate, the state

government in the next 50 years would

get revenues of ₹1.08 trillion. Agarwal

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED (Government of India Enterprise) CIN: L35100MH1934GOI002079

Registered & Corporate Office: Dockyard Road, Mazagaon, Mumbai 400 010 Ph: 022-23762000, Website : www.mazagondock.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022

		Consolid	lated Finar		it
Particulars	Quart Ende	er	Six Mo	For the year ended	
	September 30, 2022	September 30, 2021	September 30, 2022	September 30, 2021	March 31, 2022
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	1,86,597	1,66,021	4,23,243	2,96,253	6,14,355
Net Profit for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	26,145	15,604	55,142	29,525	76,330
Net Profit for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	26,145	15,604	55,142	28,128	74,933
Net profit for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	21,390	13,503	43,868	23,663	61,084
Total Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	21,165	12,891	44,106	22,924	60,609
Equity Share Capital	20,169	20,169	20,169	20,169	20,169
Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date					365,599
Earnings per share (Nominal Value of share Rs.10) (Not annualised)					
Basic:	10.61	6.69	21.75	11.73	30.29
Diluted:	10.61	6.69	21.75	11.73	30.29

			ne Financ		Fandlas
Particulars	Quari Ende		Six Me	For the year ended	
	September 30, 2022	September 30, 2021	September 30, 2022	September 30, 2021	March 31, 2022
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	1,87,141	1,66,571	4,23,787	2,96,803	6,16,691
Net Profit for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	26,689	16,154	55,686	30,075	78,666
Net Profit for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	26,689	16,154	55,686	26,678	77,269
Net profit for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	20,044	13,100	41,746	22,375	58,647
Total Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	19,762	12,704	41,927	21,786	58,241
Equity Share Capital	20,169	20,169	20,169	20,169	20,169
Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date					3,11,967
Earnings per share (Nominal Value of share Rs.10) (Not annualised)					
Basic:	9.94	6.50	20.70	11.09	29.08
Diluted:	9.94	6.50	20.70	11.09	29.08

The above results for the quarter and half year ended September 30, 2022, which have been subjected to a Limited Revieiw by the Statutory Auditors of the Company, were approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th November, 2022, in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year ended Financial Results are

available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.mazagondock.in.

The Company is engaged in the production of defence equipment and is exempted from 'Segment Reporting' vide notification S.O.802(E), dtd.23rd February, 2018 by amending notification No. G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015. In view of the above, no disclosure is made separately by the Company on operating segments under Ind

The above financial result have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 10th November 2022 as recommended by ACM.

5. The Board of Directors at its meeting held on 10th November 2022 has declared interim dividend of Rs. 9.10 per equity share to be paid to the eligible shareholders as on 22th November 2022, being the record date fixed for the purpose

For Mazagon Dock Shipbuilders Limited

Chairman and Managing Director

DIN - 08644492

VAdm Narayan Prasad, IN (Retd) Sanieev Singhal

Date: 10th November, 2022 said the exploration and mining of major ready for auction. After the formalities, and iron-ore will be auctioned for the Place: Mumbai the blocks will be identified on the ecomposite licence, while the mining minerals, along with the minor portal of the Government of India. lease will be e-auctioned for one block minerals, were being promoted.











Director (Finance)

DIN - 07642358

दिनांक: 11.11.2022

(सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ) आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार वैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋर्णियों /गारंटरों को एतदुदवारा सुचित किया जाता है और सरफेसी अधिनयम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सुचना जारी की जाती है। तािक आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सिहत बकाया देनदारी की वसुली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसुली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरूद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभुत आस्तियों को

प्रतिभूति / सम्पत्ति का विवरण

बंधक एक व्यावसायिक होटल सम्पत्ति पुराना खसरा नं0 149

क्षेत्रफल 0.3992 हैक्टेयर अर्थात् 3992, वर्ग मीटर एवं जिसमें

उत्तरः अन्य व्यक्ति की भूमि, दक्षिणः संजय, मनीष आदि की

देहरादन्। सम्पत्ति स्वामी मैसर्स सर्जिकलो एंड मेडिको सेंटर ।

संपार्थिक सम्पत्तिः 1. बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व भखंड

फसली नं0 1377, खाता नं0 44, खसरा नं0 178, माप

क्षेत्रफल 0.1958 हेक्टेयर अर्थात् 1957 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम

-शेखपुर, परगना मंगलौर, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार

विक्रेय विलेख बही नं0 1, जिल्द नं0 195/220, पेज नं0

सम्पत्ति स्वामीः श्री संजीव गोयल पुत्र श्री राम प्रकाश गोयल।

नं0 183, कुल प्लॉट माप क्षेत्रफल 7796 वर्ग फीट अर्थात्

तहसील- रूडकी, जिला- हरिद्वार। सीमाएँ:- पुर्वः आम रास्ता

पश्चिमः प्रेमचन्द का मकान, उत्तरः प्रमोद का मकान, दक्षिणः

रूमाली अरोरा का मकान, विक्रेय विलेख बही नं0 1, जिल्द

नं0 195/432, पेज नं0 200/225 से 234, क्र0सं0 558

दिनांक 03.02.2006. सब-रजिस्टार ऑफिस - रूडकी जिला- हरिद्वार पर पंजीकत है। सम्पत्ति स्वामी श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मोहन लाल अग्रवाल एवं श्रीमती संतोष

प्राथमिक सम्पत्तिः दृष्टिबंधक स्टोक एवं बही ऋणी।

पंजाब नैश्ननल बैंक 💟 punjab national bank

छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

ऋणीः मैसर्स सर्जिकलो एंड मेडिको सेंटर, ऑफिस पताः रैडिसन ब्लू प्लॉट नं0 मि0 जु0 एवं 149∕1 मि0 जु0 फसर्लो वर्ष 1416से 1421, सिडकुल, हरिद्वार, पार्टनरः श्री अनिल बब्बर एवं श्री राजेश कुमार, इसके अलावाः खाता नं0 0241, खसरा नं0 155 मि0 जु0 भूमि माप क्षेत्रफल

होटल गोल्डन ट्यूलिप ऋषिकेश रोड, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी के सामने, 0.2476 हैक्टेयर एवं खाता खतीनी नं0 01360 खसरा नं0

हरिद्वार। **पार्टनरः 1.** श्री अनिल बब्बर, डी-287, सेक्टर-47, नोएडा गौतम 165 मि0 जु0 माप क्षेत्रफल 0.1516 हैक्टेयर, कुल माप

बुद्ध नगर, उठप्र0- 201301, इसक अलावा: 13 महागुन माफियन खाट न0 से 2689.26 वर्ग मीटर, निर्मित होटल एवं सीमाएँ:- पूर्व ई-4, सेक्टर-50, गैतिम बुद्ध नगर, नोएडा- 201301, उठप्रठ। 2. श्री राजेश हरिद्धार-ऋषिकेश मेन हाइवे, पश्चिम: 20 फीट चौड़ा रास्ता

पश्चिम दिल्ली- 110085, इसके अलावाः जीबीके इम्पेस बी-18, कोजी भूमि, स्थित मौजा हरिपुर कलां, तहसील- ऋषिकेश जिला

निवासीः मकान नं0 1381/ए, 28 सिविल लाईन, जादूगर रोड, रूड़की- 89/225 से 230, ऋ0सं0 1930, दिनांक 25.05.2001

247667, हरिद्वार, उत्तराखण्ड। 2. श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मोहन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस रूड़की, जिला-हरिद्वार पर पंजीकृत है

लाईन, रूडकी-247667, हरिद्वार, उत्तराखण्ड। इसके अलावाः 52/3, मधुवन 2. वंधक एक आवासीय मकान हाउस टेक्स नं0 52/1, नया

किला लंधौरा, मंगलौर, तहसील- रूड़की। 3. श्रीमती संतोष अग्रवाल पत्नी 724.535 वर्ग मीटर एवं कुल कवर्ड क्षेत्रफल 4914.50 वर्ग

किला लिचारा, मंगलार, तहसाल- रुड्का 3. श्रामता सताच अग्रवाल पत्ना श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिविल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिविल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिविल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिविल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिविल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिविल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिविल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिविल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिवल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिवल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिवल श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नंठ 52/1, मधुबन एन्क्लेब, सिवल स्वासी स्वास

ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर के नाम

बुद्ध नगर, उ०प्र0- 201301, इसके अलावाः 13 महागुन मॉर्फियन प्लॉट नं०

कुमार, बी-18 कोजी अपार्टमेंट, प्लॉट नं0 20, सेक्टर-9, रोहिणी, उत्तर

अपार्टमेंट, प्लॉट नं0 20 सेक्टर-20 रोहिणी उत्तर पश्चिम दिल्ली- 110085

ऋणीः मैसर्स शिखा पेट्रोलियम, प्रो0 श्रीमती उमा अग्रवाल, पताः देहरादून-

दिल्ली हाइवे, गणेशपुर, रूड़की- 247667, तहसील- रूड़की, जिला- हरिद्वार,

उत्तराखण्ड। श्रीमती उमा अग्रवाल (प्रोपराइटर) पत्नी राकेश अग्रवाल, पताः

देहरादून-दिल्ली हाइवे, गणेशपुर, रूड़की- 247667, तहसील- रूड़की, जिला-

हरिद्वार, उत्तराखण्ड। गारन्टरः 1. श्री संजीव गोयल पुत्र श्री राम प्रसाद गोयल,

लाल अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नं0 52/1, मधुबन एन्क्लेव, सिविल

एन्क्लेव, सिविल लाईन, रूड़की- 247667, इसके अलावाः 112, मीहल्ला-

लाईन रूड़की- 247667, हरिद्वार, उत्तराखण्ड। इसके अलावाः 52/3, मधुबन

एन्क्लेव, सिविल लाईन, रूड़की- 247667, इसके अलावाः 112, मौहल्ला-

किला लंधीरा परगना मंगलीर, तहसील- रूड़की। 4. श्री राकेश अग्रवाल पुत्र

स्व0 श्री मोहन लाल अग्रवाल, निवासीः हाउस टैक्स नं0 52/1, मधुबन

ा एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L65929HR1985PLC033936

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर—32, गुरुग्राम—122001, हरियाणा फोन: +91-124-4675500, फैक्स नं.: +91-124-4370985

- मेल : cc	orpor	ate@	②hbs	tockl	nolding	s.coi	m, वेब	ासाइट	: ww	w.hbst	ockholo	dings.co	m
	_	Α,		۷ ک		<u>~_</u>	20			/	_ 4-		<u> </u>

क्र.	विवरण		पृथक्कृत			समेकित	
सं.		तिमाही	पूर्व वर्ष में	अर्द्ध वर्ष	तिमाही	पूर्व वर्ष में	अर्द्ध वर्ष
		समाप्त	संगत तिमाही	समाप्त	समाप्त	संगत तिमाही	समाप्त
			समाप्त			समाप्त	
		30/09/2022	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2022
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	816.10	163.90	295.91	816.10	163.90	295.91
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ /(हानि) (कर, अपवाद मदों से पूर्व)	764.50	107.14	197.81	763.21	105.88	195.16
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ /(हानि) कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	764.50	107.14	197.81	763.21	105.88	195.16
ŀ.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ /(हानि) कर पश्चात (अपवाद मदों के बाद)	762.91	59.53	196.50	761.62	58.27	193.85
i.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ /(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है।	767.70	109.86	195.79	766.41	108.60	193.14
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	713.77	713.77	713.77	713.77	713.77	713.77
7.	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)						
	मूल :	10.69	0.83	2.75	10.67	0.82	2.72
	तनुकृत :	10.69	0.83	2.75	10.67	0.82	2.72

(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज(स) को प्रस्तुत किए गए तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज(स) की वेबसाइट, बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.com, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, www.nseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com पर उपलब्ध है।

(ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 10 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनमोदित किए गए थे। कते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड हस्ता./-

स्थान : गुरूग्राम तिथि: 10/11/2022

अनिल गोयल (निदेशक) DIN: 00001938 AXIS BANK

रिटेल लेंडिंग एण्ड पैमेन्ट ग्रुप (स्थानीय कार्यालय/शाखा): एक्सीस हाउर टॉवर-2, दूसरा तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसव्य ाधर—२, पूसरा तल, जाङ् - १४, समस्य न्यान, ताङ् - १४, समस्य न्यान, तास्य स्थान, तास्य स्थान, तास्य स्थानीयी—1 जयपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा—201301, उ.ग्र. **एक्सीस वैंक लिमिटेड.**, तीसरा तल, गीगाप्लेक्स, एनपीसी—1 टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, मुगालसन रोड, एरोली, नवी मुंबई—400 708 **पंजीकृत कार्यालय** : ''त्रिशूल'', तीसला तल, समर्थवेश्वर मंदिर लॉ गॉर्डन के सामने, एलीजब्रीज अहमदाब

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(६) के परंतुक के साथ पठित के तहत अचल परिसंपत्तियों की विक्री के लि

, –नीलामी बिक्र<u>ी सूचना</u> तद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटरों(ओं) को सूचित किया जाता है वि नीचे वर्णित अचल संपत्ति प्रत्याभत ऋणदाता को गिरवी /बंधक रखी गई है. जिसका, कब्जा प्रत्याभत ऋणदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को प्रत्याभूत ऋणदाता के 1. श्रीमती अनुप्रिया मिश्रा और 2. श्री **आशिष से** ऋण सं. पीएचआर 036101885377 में बकाया रुपये 65,13,269/— (रुपये पैंसठ लाख तेराह हजार दौ सौ उनहत्तर मात्र) दिनांक 05. 1 1.2022 तक भविष्य के ब्याज और लागतोंके साथ की वसली के लिए 30.11.2022 को ''जो है जैसा है'', ''जो है जहां है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' पर बेचा जाएगा।

कृपया आवश्यक विररण के लिए संलग्न नीलामी अनुसूची देखें।								
ज्ञात भार (यदि कोई)	कोई नहीं							
आरक्षित मूल्य (रूपये में)	रु. 5135850/— (रुपये इक्यावन लाख पैंतीस हजार आठ सौ पचास मात्र)							
अग्रिम राशि जमा	रु. 513585/— (रुपये पांच लाख तेरहा हजार पांच सौ पिचार मात्र) 'एक्सीस बैंक लिमिटेड' दिल्ली में देय पक्ष में डीडी/पीओ माध्यम से							
बोली वृद्धि राशि	रुपये 10,000/—(रुपये दस हजार मात्र)							
पीएमबी के साथ बोली / निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक, समय और स्थान	29 नवम्बर 2022 तक अर्पोह्न 5 बजे से पहले एक्सीस हाउस, टॉवर—2, दूसरा तल, आई—14, सेक्टर—128, नोएडा एक्सोप्रस्य, जयपी ग्रीन्स विशटाजन, नोएडा—201301, उ.प्र., श्री मुकेश सिंह को संबोधित							
सार्वजनिक ई-नीलामी के लिए दिनांक, समय और स्थान	30 नवम्बर, 2022, पूर्वाक्क 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच, संग असीमित विस्तारित 5 मिनट प्रत्येक वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com							

<u>अनुसूची – संपत्ति का विवरण</u>

शामिल है, सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है।

आवासीय डवेलिंग इकाई सं. ''पी4—101' प्रथम तल पर टॉकर से 04, पवेतियन कोर्ट प्रोजेक्ट, जिसका सुपर क्षेत्र 1356 वर्ग फुट, (125.98 मीटर लगभग) स्थित सेक्टर—128, जयपी ग्रीन विशटाऊन, नोएडा जिला—गीतगबुद्ध नगर, उ.प्र जिसका सीमांकन मिन्न प्रकार : पूर्व : साईंड प्लान अनुसार, पश्चिम : साईंड प्लान अनुसार, उत्तर—साईंड प्लान अनुसार, क्षिण : साईड प्लान अनुसार

विक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् https://www.axisbank com/auction-retail लिंक देखें और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड उन

वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर। ई-नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता गैसर्स सी। इंडिया प्रायवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्ट https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
किसी भी अन्य सम्मान के लिए नियान के प्रिकार

प्राधिकृत अधिकारी एक्सीस बैंक लिमिटेड दिनांक : 07.11.2022, स्थान : नोएडा

शाखाः सिविल लाईन रूड़की

शाखाः चौक बाजार, रूड़की

एन्क्लेव, सिविल लाईन रूडकी- 247667

दिनांक-10.11.2022

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए

नीलामी/बिक्री सूचना तद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक कब्जा सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, प्रतिभृत लेनदार के निम्नलिखित कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) से बकायों की वसुली के लिए उसकी बिक्री ''जैसे है जहां है'', ''जो है यही हैं'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 11.11.2022 को की जायेगी। जमा किया जाने वाला आरक्षित मूल्य और प्ररोहर राशि कमश: नीचे उल्लिखित है।

क्र. सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार तथा बंधककर्ताओं के नाम	सम्पत्तियों का विवरण तथा स्वामी	आरक्षित मूल्य (आरपी) ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10%	मांग सूचना के अनुसार वसूली योग्य राशि
1.	1. रंजीत कुमार ठाकुर उर्फ रंजीत कुमार (बंधककर्ता/कर्जदार) पुत्र राम दयाल ठाकुर, मकान नं. 133, गली नं. 2, युको बैंक के पास, विपियाना, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र201009, इसके अलावाः मकान नं. बी- 37 पहली मंजिल, गली नंबर 12, राहुल विहार 2, सेक्टर 12, प्रताप विहार, गौतमबुद्ध नगर, -201009, इसके अलावाः खसरा नंबर 74, ग्राम विपियाना खुर्द तिगरी, पराना और तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र 201009, 2. मुन्नी कुमारी (सह-कर्जदार), मकान नंबर 133, गली नंबर 2, युको बैंक के पास, विपियाना, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र201009, इसके अलावाः हाउस नंबर बी- 37, पहली मंजिल, गली नंबर 12, राहुल विहार 2, सेक्टर 12, प्रताप विहार गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र201009। ऋण अनुबंध संख्या (LNHOF00917-180000172)	सम्पत्ति माप 30 वर्ग गज, खसरा नं. 74 में, ग्राम चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.	表: 375,000/- 表: 37,500/-	रु. 9,28,734/- तिथि 29,06,2020 तक + भावी च्याज एवं अन्य बकाया च्यय

बिक्री के नियम और शतैं: 1) उपरोक्त संपत्ति का पूरा विवरण अधिकृत प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। प्राधिकृत अधिकारी से दिनांक एवं समय नियत क के सम्पत्तियाँ/दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है। 2) इच्छूक बोलीदाताओं को अपनी संविदा अधिकृत प्राधिकारी के पास ''प्रतिभृत लेनदार'' वे उपरोक्त कार्यालय के पते पर, एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर ''नीलामी/संपत्ति की बिक्री के लिए बोली'' लिखा हो, ''सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' नई दिल्ली. बैंक पता – कनॉट प्लेस. 18/20. केजी मार्ग. नई दिल्ली. बैंक खाता संख्या 00030340068154. आईएफएससी कोड– HDFC0000003 वे ाथ में आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ईएमडी के साथ 12.12.2022 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले भेजनी होगी। 3) सीलबंद संविदाए 13.12.2022 को अपराह्न 02.00 बजे खोली जाएंगी और उसके बाद पात्र बोलीदाताओं को प्राधिकत अधिकारी के विवेक पर पुस्ताव मल्य बढ़ाने के लिए गध्यम से ''सप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में नई दिल्ली में देय जमा करना होगा और सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि का भगतान बैंक द्वार बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई ईएमडी के साथ-साथ बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। बदि सफल बोलीदाता विक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई चूक करता है तो ईएमडी जमा या विक्री मूल्य का 25%, जैसा भी मामला हो, ''ग्रतिभूत लेनदार'' द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।5) सफल बोलीदाता नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण के वैधानिक बकाया/करों/बिलों आदि और 'बिक्री प्रमाणपत्र' के पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित सभी व्ययों को वहन करेगा। 6) ''प्रतिभूत नदार'' किसी भी प्राधिकरण से कोई अनुमति/एनओसी प्राप्त करने या किसी अन्य लागू कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण से प्रस्तावित सम्पत्ति के संबं में अन्य बकायों जैसे पानी/बिजली का बकाया देय, संपत्ति कर या अन्य शुल्क यदि कोई हो, की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। 7) प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है या बिना किसी पूर्व सुचना के बिक्री की शतों को शिधित करने या बिक्री को रद्द करने या स्थिगित करने का पूर्ण अधिकार है। 8) अपने सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, ''प्रतिभूत लेनदार'' को प्रतिभूत लेनदार'' को बेची जाने वाली संपत्तियों को छोड़कर उस पर किसी भी तरह के ऋणभार की जानग्कारी नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्तियों का अपना मुल्यांकन करना चाहिए। प्रतिभृत लेनदार उपरोक्त संपत्तियों के फिटनेस/स्वामित्व के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी नहीं देता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

"सप्रीम हाउसिंग फाडनेंस लिमिटेड". श्री अमिताभ दास के माध्यम से (ईमेल: amitabh.das@supremeho गोबाइल नंबर 9716935319, पंजीकृत कार्यालयः दूसरी मंजिल, हर्ष भवन, 13/29, ई-ब्लॉक, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -11000⁻

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत वैधानिक 30 दिवसीय सूचना कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को एतदवारा नीलामी से पहले अद्यतन ब्याज और अनुषंगी व्ययों के साथ ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करने के

गोटः सरफेसी मांग सूचना जारी करने के बाद भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, वसूली ∕निपटान के समय बकाया देय राशि का लगाने के लिए उसकी गणना की जाए

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिका

बकाया राशि

31.10.2022 को

8,42,05,157.71

प्रभावी ब्याज एवं

अन्य खर्चे

देनांक 01.11.2022

31.10.2022 को

70,69,483.33

प्रभावी ब्याज एवं

अन्य खर्चें

दिनांक 01.11.2022

प्राधिकृत अधिकारी

(₹ in Crores) Ear the

For the

year ended

31.03.2022

(Audited)

10.122.86

2,112.07

525.85

1,586.22

1,577.09

रिकवरी सेंटर, पीएनबी हाउस, भेल, सेक्टर-IV, हरिद्वार- 249403

Email: CS8238@pnb.co.in

मांग सूचना तिथि

आपको दिनांक **01.11.2022** को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें

0 8,42,05,157.71 + ब्याज

कानूना ५५ ज दिनांक 01.11.2022

आपको दिनांक 01.11.2022 को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें

रू**0 70,69,483.33** + ब्याज

कानूना एवं जन्म जन दिनांक 01.11.2022

जगसनपाल फर्मासिटिकल्स लिमिटेड CIN: 174899DI 1978PI C009181

पंजीकत कार्यालय : टी-210 जे. शाहपर जाट. नई दिल्ली - 110 049, दरभाष : 011-46181100 & 46109900 फैक्स : 01126493841वेबसाइट:www.jagsonpal.com, ई—मेल:cs@jagsonpal.com

_	विवरण	ातमाहा एव अधव	।।षक क उद्धारत	स्ट डअलान अनअकार स्टैंडअलोन			रू० लाखों में 12 महीने
	Iddfal		समाप्त तिमाही	स्टब्जलान	समाप्त अ	र्धवार्षिक	ाट महान समाप्त वार्षिक
		30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
1	परिचालन से कुल आय	6,052.62	6,059.69	5,839.30	12,112.31	11,244.78	21,758.43
2	अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) (कर से पहले, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों#)	1379.35	728.52	939.52	2107.87	1876.73	2664.31
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) (विशिष्ट एवं/	1379.35	382.62	939.52	1761.97	1876.73	2664.31
	(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)						
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) (विशिष्ट एवं/	1041.22	292.16	656.40	1333.38	1314.43	1885.62
	(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)						
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय {अवधि के लिए शामिल लाभ/	1041.22	292.16	656.40	1333.38	1314.43	1885.62
	(हानि) {कर पश्चात्} एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)श						
6	रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के						12055.71
	अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया						
7 8	इक्वीटी शेयर कैपीटल	1309.90	1309.90	1309.90	1309.90	1309.90	1309.90
8	प्रति शेयर आय (रू० 5/- प्रति प्रत्येक) संचालन जारी						
	एवं बंद करने के लिए						
	बेसिक (रू०)	3.97	1.12	2.51	5.09	5.02	7.20
	डायल्यूटेड (रू०)	3.97	1.12	2.51	5.09	5.02	7.20
							बोर्ड के आदेशानुसार

कते जगसनपाल फर्मासिटिकल्स लिमिटेड

हस्ता०/-

Place : New Delhi Date: 9-11-2022

मनीष गुप्त प्रबन्ध निदेशक DIN No 06805265



30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही / छमाही के अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम का सार

क्र.	विवरण	एकल						
सं.		-	समाप्त तिमाही		समाप्त छ	माही	समाप्त वर्ष	
		30 सितम्बर,	30 जून,	30 सितम्बर,	30 सितम्बर,	30 सितम्बर,	31 मार्च,	
		2022	2022	2021	2022	2021	2022	
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	
1	प्रचालनो से कुल आय	26246.31	24028.59	26826.92	50274.90	47469.30	103473.32	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवादात्मक मदों के पूर्व)	(515.59)	1038.30	5752.89	522.71	10897.78	16392.13	
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादात्मक मदों के पश्चात)	(515.59)	1038.30	5752.89	522.71	10897.78	16038.72	
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	(385.82)	776.33	4303.62	390.51	8153.64	12015.04	
5	अविध के लिए कुल व्यापक आय / (हानि) (इसमें अविध के लिए लाभ/ (हानि) (कर पश्चात)	(280.61)	804.40	4354.84	523.79	8180.57	11950.59	
	एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल है)							
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 / — प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	
7	आरक्षित पूर्ण मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर						47886.61	
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता						235.10	
9	शुद्ध मूल्य						52017.14	
10	चुकता ऋण पूंजी/बकाया ऋण						17284.10	
11	ऋण इक्विटी अनुपात						0.33	
12	अर्जन प्रति शेयर (₹ 10 ∕ − प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं)							
	1. मूलभूत (₹)	(0.93)	1.88	10.42	0.95	19.74	29.09	
	2. डाइल्यूटेड (₹)	(0.93)	1.88	10.42	0.95	19.74	29.09	
13	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व						530.97	
14	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात						1.53	
15	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (संख्या)						9.56	

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही / छमाही के अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम का सार

	of that, 2022 is a later of the stream with a first in the stream									
					(₹ करोड़ में जब	तक कुछ और	न बताया जाये			
豖.	विवरण			स	मेकित					
सं.			समाप्त तिमाही		समाप्तः	छमाही	समाप्त वर्ष			
		30 सितम्बर,	30 सितम्बर, 30 जून, 30 सितम्बर,		30 सितम्बर,	30 सितम्बर,	31 मार्च,			
		2022	2022	2021	2022	2021	2022			
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अं के क्षित			
1	प्रचालनो से कुल आय	26246.34	24028.62	26828.01	50274.96	47471.03	103476.84			
2	अविध के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवादात्मक मदों के पूर्व)	(442.61)	1047.30	5794.86	604.69	11007.09	16645.28			
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)(अपवादात्मक मदों के पश्चात)	(442.61)	1047.30	5794.86	604.69	11007.09	16291.87			
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	(329.36)	804.50	4338.75	475.14	8236.11	12243.47			
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (इसमें अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	(158.98)	911.95	4410.42	752.97	8303.87	12233.79			
	एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल है)									
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 / – प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53			
7	आरक्षित पूर्ण मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर						50081.15			
8	अर्जन प्रति शेयर (₹ 10 / – प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं)									
	1. मूलभूत (₹)	(0.80)	1.95	10.50	1.15	19.94	29.64			
	0 नामकार्यन (3)	(0.90)	1.05	10.50	1 1 1 5	10.04	20.64			

टिपण्णी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 10 नवंबर, 2022

1. इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गयी है और 10 नवंबर 2022 को आयोजित संबंधित बैठकों में निवंशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गए हैं ।

2. उपरोक्त 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है, जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (के रूप में संशोधन) के विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किया गया है। इन वित्तीय परिणामों का पर्ण प्रारूप एनएसई और बीएसई की स्टॉक एक्सचेंज वेबसईटो क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर निवेश संबंध अनुभाग के अंतरगर्त उपलब्ध है।

हस्ता / -

(अनिल कुमार तुल्सीआनी)

मजबूत घर के लिए सेल SeQR टीएमटी बार्स www.sailsuraksha.com पर खरीदे

CIN: L27109DL1973GO1006454, Tel: +91 11-24367481, Fax: +91-11 24367015, E-mail: investor.relation@sail.in, Website: www.sail.co.in

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

Registered office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003

The Steel Authority of India Limited

SAILsteel SAILsteelofficial Steel Authority of India Limited Note

1. The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated guarterly financial results filed with the Stock Exchanges under

Unaudited)

3.397.19

828.56

213.70

614.86

593.32

For and on behalf of the Board of Directors

For the half year ended

4.089.71

801.28

190.71

610.57

605.50

(Unaudited)

6.645.13

1,592.86

397.83

1,195.03

1,154.87

Particulars

Total Revenue from operations

Total Comprehensive Income (net of tax)

Profit before tax

Net Profit after tax

Tax expense

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited guarterly financial results (Consolidated and Standalone) are available on Company's website - www.eicher.in and also on the website of stock exchanges i.e NSE -www.nseindia.com and BSE - www.bseindia.com.

Siddhartha Lal Date: November 10, 2022 **Managing Director**

For the quarter ended

3.247.94

764.30

184.13

580.17

561.55

30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021

2.181.91

445.20

101.84

343.36

332.34

Unaudited) (Unaudited)

स्थान – हरिद्वार **EICHER**

अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश अग्रवाल।

EICHER MOTORS LIMITED CIN: L34102DL1982PLC129877

Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre. Saket. New Delhi - 110017 Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122 001, Harvana Telephone: +91 124-4415600

Email: investors@eichermotors.com, Website: www.eicher.in

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

S.		For	the quarter e	nded	For the half	year ended	For the year ended
		30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	3,519.40	3,397.46	2,249.56	6,916.86	4,223.86	10,297.83
2.	Profit before share of profit / (loss) of Joint venture and tax	836.05	758.31	465.94	1,594.36	832.86	2,142.36
3.	Share of profit / (loss) of Joint venture (VE Commercial Vehicles Limited)	44.12	33.78	9.82	77.90	(29.58)	60.15
4.	Tax expense	223.31	181.43	102.56	404.74	192.95	525.91
5.	Net Profit after tax and share of profit / (loss) of Joint venture	656.86	610.66	373.20	1,267.52	610.33	1,676.60
6.	Total Comprehensive income (net of tax)	636.32	590.75	359.43	1,227.07	590.68	1,657.44
7.	Equity Share Capital	27.35	27.34	27.34	27.35	27.34	27.34
8.	Other equity						12580.66
9.	Earnings Per Share on net profit after tax (of ₹ 1 each) (not annualised) in ₹						
	(a) Basic	24.02	22.33	13.65	46.36	22.33	61.33
	(b) Diluted	23.98	22.30	13.63	46.28	22.30	61.26
Ke	y numbers of Standalone Financial Results:						(₹ in Crores)